



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 1982/फाल्गुन 21, 1903

No. 47] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 1982/PHALGUNA 21, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्वाह व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या-11 ई टी सी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1982

विषय:—बीएसडि का नियंत्रण।

सं० 6(8)/82-ई-2.—सार्वजनिक सूचना संख्या 18-ई टी सी (पी एन)/80, दिनांक 17
मई, 1980 की कंडिका 8 और सार्वजनिक सूचना सं० 30 ई टी सी (पी एन)/80, दिनांक 21 जून,
1980 की कंडिका 2(2) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार प्राइवेट पार्टियों
(जान के स्वामियों) के लिए यह आवश्यक है कि वे खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मानक
संविदात्मक शर्तों आदि के आधार पर संविदा करें।

2. यह निश्चय किया गया है कि खान स्वामियों द्वारा 5000 मी० टन से अधिक के बैराइट्स पाउडर के निर्यात की स्वीकृति अभी उपयोग में आ रहे मानक संविदा प्रपत्र के आधार पर न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रक्रिया के अधीन क्रमशः निम्नलिखित खण्ड (1), (2), एवं (5) में निहित छूट के अधीन दी जाएगी :-

- (1) खानस्वामियों का यह विकल्प होगा कि वे चाहे तो विशिष्ट मात्रा का या विशिष्ट मात्रा में 10 प्रतिशत और जोड़ कर या उसमें से घटा कर निर्यात करें,
- (2) खानस्वामियों को बैराइट्स पाउडर के ओ०मी०एम०ए०/ए०पी०आई० दोनों ग्रेड के निर्यात के लिए अनुमति दी जा सकती है ;
- (3) बैग में बैराइट्स के मामले में 750 से 1000 मी० टन की लदान गारन्टी की अनुमति प्रदान करने के लिए लदान गारन्टी की शर्तों को संशोधित किया जा सकता है ;
- (4) प्रत्येक प्रेषण के साथ 1/2 प्रतिशत बैग मुफ्त में संभरण करने की शर्त को हटाया जा सकता है ।

3. यह भी निश्चय किया गया है कि खान स्वामी इस शर्त के अधीन लागत तथा भाड़ा के आधार पर संविदा कर सकते हैं कि वसूल की जाने वाले विदेशी मुद्रा भारतीय पत्तन/मन्ना के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अनुसार समय-समय पर घोषित न्यूनतम मूल्य से कम न हों ।

4. वर्तमान मानक प्रपत्र निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :—

- (क) उन अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं के मामले में जहाँ न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारण पूरा कर दिया जाता है; और
- (ख) उन संविदाओं के मामले में जिनमें 5000 मी० टन से कम का केवल एक लदान हो बशर्ते कि न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारण पूरा कर दिया जाता है ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य बिंबक
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE No. 11-ETC(PN)/82
New Delhi, the 12th March, 1982

Subject :—Export of Barytes.

File No. 6/8/82-EH.—Attention is invited to paragraph 8 of Public Notice No. 18-ETC(PN)/80 dated the 17th May, 1980, and paragraph 2(ii) of Public Notice No. 30-ETC(PN)/80 dated the 21st June, 1980, according to which the private parties (the mine owners) are required to enter into contract on MMTC's Standard Contractual terms etc.

It has been decided that export of barytes powder above 5,000 MTs. by mine-owners will be allowed subject to the floor price mechanism on the

basis of the Standard Contract Forms currently in use subject to the following relaxations in clauses (1), (2) and (3) respectively :—

- (i) Mine-owners will have the option of exporting either a specific quantity or a specific quantity plus or minus 10% ;
- (ii) Mine-owners may be permitted to export both OCMA/API grades of barytes powder ;
- (iii) Loading guarantee condition may be amended to permit loading guarantees of 750 to 1000 MT in case of bagged barytes ;
- (iv) Condition of supplying half-a-percent empty bags free of charge with each consignment may be waived.

3. It has also been decided that the mine-owners can enter into C&F contracts subject to the condition that the effective foreign exchange realisation is not less than the minimum floor prices announced from time to time in terms of FOB Indian Port/Madras.

4. The present standard form would not be applicable in the following cases :—

- (a) In the case of international tenders, where the MEP stipulation is fully met ; and
- (b) For contracts involving single shipments of less than 5,000 MT provided the MEP stipulation is fulfilled.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller
Imports and Exports

